

**\*प्रेस नोट- सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 26.11.2022\***

**\*अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता\***

**\*थाना हसनपुर/SOG/सर्विलांस टीम अमरोहा द्वारा बाद पुलिस मुठभेड हत्या की घटना मे वांछित बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, जिन्दा/खोखा कारतूस व चोरी की 01 संदिग्ध मोटर साईकिल बरामद ।\***

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री अभिषेक कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर/SOG/सर्विलांस टीम अमरोहा द्वारा बाद पुलिस मुठभेड हत्या की घटना में वांछित बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध असलहा, जिन्दा/खोखा कारतूस व चोरी की 01 संदिग्ध मोटर साईकिल बरामद हुई।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25/26.11.2022 की रात्रि में समय करीब 22.50 बजे थाना हसनपुर जनपद अमरोहा क्षेत्रान्तर्गत गजरौला मार्ग मनौटा पुल के पास आगापुर मोड पर थाना प्रभारी हसनपुर/SOG/सर्विलांस टीम अमरोहा मय पुलिस बल के चैकिंग कर रहे थे, कि हसनपुर की तरफ से एक मो0सा0 बिना नम्बर पैंशन प्रो काला/लाल रंग पर सवार 01 व्यक्ति आया जो पुलिस को देखकर आगापुर की तरफ मुडकर भागने लगा पुलिस बल द्वारा उक्त संदिग्धों को रोकते टोकते हुये पीछा किया तो इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिसमें आरक्षी1085 नरेन्द्र रावत घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी तो इसके शरीर के निचले हिस्से पैर में गोली लगने से घायल हो गया घायल कि पहचान अभियुक्त शोएब पुत्र महफूज निवासी मौ0 कायस्थान चामुण्डा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के रुप मे हुई। उक्त बदमाश थाना हसनपुर के मु0अ0सं0 651/2022 धारा 302 भादवि में वांछित था। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस अवैध 12 बोर व एक संदिग्ध चोरी की मोटर साइकिल बिना नम्बर पैंशन प्रो रंग काला/लाल बरामद हुई। घायल आरक्षी नरेन्द्र रावत व गिरफ्तार/घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर मु0अ0सं0 654/2022 धारा 307,414 भादवि व धारा 3/25 आर्म एक्ट बनाम शोएब उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*घायल/गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. शोएब पुत्र महफूज निवासी मौ0 कायस्थान चामुण्डा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष।

**\*बरामदगी\*:-**

1. 1 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।
2. बिना नम्बर की हीरो पैंशन प्रो मोटर साइकिल।

**\*पुछताछ विवरण\*:-**

पुछताछ पर अभियुक्त शोएब द्वारा बताया गया कि मु0अ0सं0 651/22 धारा 302 भादवि के मृतक राजेन्द्र पुत्र रामस्वरुप उम्र करीब 50 वर्ष पर अभियुक्त शोएब के मजदूरी एवं ई-रिक्शा के किराये के पैसे बकाया थे तथा अपनी मां के साथ सम्बन्ध की जानकारी होने पर इसके द्वारा दिनांक 23/24.11.2022 का रात्रि में अपने साथी सुहैल पुत्र सद्धन निवासी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के साथ मिलकर राजेन्द्र की कैटीन में घुसकर राजेन्द्र को खुरपा नुमा लोहे के औजार से सिर में वार कर राजेन्द्र की हत्या कर फरार हो गये थे।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त शोएब\*:-**

1. मु0अ0सं0 651/22 धारा 302 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
2. मु0अ0सं0 654/22 धारा 307/414 भादवि (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

**\*अभियुक्त के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है\*।**

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\* :-**

**\*थाना हसनपुर पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह पुण्डीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. निरीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 विकास कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. उ0नि0 विनोद कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 341 गौरव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 1294 तरुण तालान थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. का0 232 अरुण कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
8. का0 1085 नरेन्द्र रावत थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
9. का0 1236 विशेष राणा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
10. का0 322 मोहित कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

**\*SOG/सर्विलांस टीम अमरोहा\*:-**

1. उ0नि0 बिजेन्द्र मलिक प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 संदीप कुमार प्रभारी SOG टीम अमरोहा ।
3. हे0का0 गौरव शर्मा सर्विलांस टीम अमरोहा ।
4. का0 योगेश तोमर सर्विलांस टीम अमरोहा ।
5. का0 अरविन्द शर्मा सर्विलांस टीम अमरोहा ।
6. का0 विजय शर्मा SOG टीम अमरोहा ।
7. का0 लवी चौधरी सर्विलांस टीम अमरोहा ।
8. का0 आशीष SOG टीम अमरोहा ।
9. का0 राकेश कुमार SOG टीम अमरोहा ।
10. का0 सूरज SOG टीम अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***